



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 379] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 22, 1976/अग्रहाण 1, 1898

No. 379] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 22, 1976/AGRAHAYANA 1, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 22nd November 1976

G.S.R. 891(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts sugar [falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)], produced during the period commencing on the 1st day of October, 1976 and ending with the 30th day of September, 1977 and cleared on or after the date of publication of this notification in the Official Gazette and required by the Central Government to be sold under clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), from so much of the duty of excise and the additional duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty and the additional duty calculated at ten per cent and five per cent respectively, on the basis of the price determined by the Central Government, from time to time, under sub-section (3C) of section 3 of the said Essential Commodities Act, as the price payable for such sugar to the producer thereof.

Explanation.—For the purposes of this notification, the element of the duty and the additional duty, if any, added to the price aforesaid shall be deducted before calculating the duty and the additional duty on the basis of such price.

2. Nothing contained in this notification shall affect the notifications of the Government of India in the Department of Revenue and Banking (Revenue Wing) No. 251/76-Central Excises, dated the 14th September, 1976 and No. 254/76-Central Excises, dated the 21st September, 1976.

[No. 279]

G. S. MAINGI, Under Secy.

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1976

सा० का० नि० 891 (अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अक्तूबर, 1976 को आरम्भ होने वाली और 30 सितम्बर, 1977 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उत्पादित और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को या उसके पश्चात् निकासी की गई [केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 1 की उप-मद (1) के अन्तर्गत आने वाली] चीनी को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (च) के अधीन विक्रय किए जाने के लिए अपेक्षित चीनी है, उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है, जितना, ऐसी चीनी के उत्पादन को उसके लिए संदेय कीमत के रूप में, उक्त आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3ग) के अधीन, समय-समय पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित कीमत के आधार पर, क्रमशः दस प्रतिशत और पांच प्रतिशत पर संगणित शुल्क और अतिरिक्त शुल्क से अधिक हो।

स्पष्टीकरण.—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, ऐसी कीमत के आधार पर शुल्क और अतिरिक्त शुल्क की गणना करने से पूर्व शुल्क और अतिरिक्त शुल्क की वह रकम, यदि कोई हो, जो पूर्वोक्त कीमत में जोड़ी गई हो, घटा दी जाएगी।

2. भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग (राजस्व पक्ष) की अधिसूचना सं० 251/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 14 सितम्बर, 1976 और सं० 254/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 21 सितम्बर, 1976 में की कोई भी बात इस अधिसूचना को लागू नहीं होगी।

[सं० 279]

जी० एस० मैंगी, अव्वर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार भूट्टणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा
निबंधक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976